



महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2020 को हरित हरियाणा अभियान का आयोजन

श्री लाल नाथ हिंदू कॉलेज हरियाणा अभियान की ओर से पौधारोपण का आयोजन किया गया। डॉ. प्रदीप कुमार, वीरेंद्र बलोदा व कुमारी मौसम के दिशा निर्देशन में इस कार्यक्रम को कराया गया। इस प्रोग्राम के उद्देश्य उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल के लिए प्रेरित करना था। इस प्रोग्राम में 20 स्टाफ सदस्यों तथा 50 विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाए।



हरित अभियान में छात्रों ने लिया भाग

जागरण संवाददाता, रोहतक : श्री लाल नाथ हिंदू कॉलेज के हरित हरियाणा अभियान (उन्नत भारत अभियान) के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। अभियान तीन से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा हर एक विद्यार्थी को वृक्षाबंधन अभियान के तहत पौधारोपण करने और उस पौधे की देखभाल के लिए प्रेरित कर रहा है। रक्षाबंधन पर कॉलेज प्रांगण में वृक्षाबंधन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कॉलेज में हर्बल पार्क बनाया गया।



श्री लालनाथ हिंदू कॉलेज में पौधारोपण किया

रोहतक | श्री लालनाथ हिंदू कॉलेज के हरित हरियाणा अभियान की ओर से पौधारोपण चलाया जा रहा है। हर्बल पार्क में तुलसी, काली मिर्च, अश्वगंधा, गिलोय, एलोवेरा, मरवा, कढ़ी पत्ता, आंवला, नींबू और हल्दी के पौधे लगाए गए। हरित हरियाणा अभियान के नोडल ऑफिसर डॉ. प्रदीप श्योरान ने बताया कि समस्त स्टाफ ने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया।



महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ऑनलाइन राज्य स्तरीय पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन

श्री लाल नाथ हिंदू महाविद्यालय, रोहतक में शारीरिक शिक्षा विभाग के द्वारा तंबाकू निषेध दिवस मनाने के उपलक्ष में ऑनलाइन राज्य स्तरीय पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कॉलेज प्राचार्या रश्मि छाबड़ा की अध्यक्षता में किया गया। शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि इस राज्य स्तरीय ऑनलाइन पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से 57 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया।


इस प्रतियोगिता का विषय तंबाकू निषेध दिवस रहा। जो विश्व भर में हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संघटन ने - नो तंबाकू दिवस की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाने के लिए हर साल थीम भी रखी जाती है। इस साल यानी वर्ष 2021 में इसकी थीम - "छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध" है। यह अभियान लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोगों को इसके हानिकारक प्रभाव को समझने के लिए डब्ल्यूएचओ के जरिए जागरूकता पैदा करने के लिए नई प्रदर्शनियों और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका में डॉ रजनी कुमारी, डॉ प्रदीप कुमार, वीरेंद्र बलोदा व कुमारी मौसम रही।

इस ऑनलाइन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पोस्टर मेकिंग, स्लोगन प्रतियोगिता का सफल संचालन शारीरिक शिक्षा विभाग अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार, वीरेंद्र बलोदा व कुमारी मौसम, रजनी कुमारी के कुराल नेतृत्व में किया गया।

इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्या रश्मि छाबड़ा ने सभी विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी तथा उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरित किया।

इस तरह की गतिविधियों का आयोजन करने के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग को बधाई दी। इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने से युवा विद्यार्थियों में जागरूकता, कौशल एवं कर्तव्य का विकास होता है।



स्लोगन लेखन में काजल प्रथम, गुंजन द्वितीय

रोहतक | श्री लालनाथ हिंदू कॉलेज में शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को तंबाकू निषेध दिवस पर ऑनलाइन राज्य स्तरीय पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता हुई। इसमें पोस्टर मेकिंग में श्री लालनाथ हिंदू महाविद्यालय रोहतक से योगिता द्वितीय व जाट कॉलेज रोहतक भारत सिंह व गुंजन-हिमानी तृतीय रहीं। स्लोगन प्रतियोगिता में पंडित एनआरएस कॉलेज रोहतक से काजल प्रथम, श्री लालनाथ हिंदू कॉलेज रोहतक से गुंजन द्वितीय रहीं। डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में 57 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। प्राचार्या रश्मि छाबड़ा ने विजेताओं का सम्मान किया।

Submitted By

Dr. Pardeep kumar
Virender Baloda
Ms. Mousam